

12-693
2191
12/10/05

11834
भारत सरकार मुद्रणालय.....
दिनांक.....को प्राप्त ।

रजिस्ट्री सं० डी० एल-33004/99

REGD. NO. D.L.-33004/99



प्रभारी
राजपत्र वितरण एकक

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

P.O. 450
Km 30
Distt 200
C.P.B. 220
Bhasad
13/11/05

सं. 557]
No. 557]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 20, 2004/अग्राहायण 29, 1926
NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 20, 2004/AGRAHAYANA 29, 1926

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2004

सा.का.नि. 820(अ).—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा संबंधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श करने के बाद केन्द्रीय सरकार अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु सह सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएँ) नियमावली, 1958 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (i) इन नियमों का नाम अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु सह सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएँ) संशोधन नियमावली, 2004 है।

(ii) ये नियम, शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु सह सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएँ) नियमावली, 1958 (इसके पश्चात् उक्त नियमावली के रूप में उल्लिखित) में नियम 16 के उप नियम (2) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु यह और कि संबंधित राज्य सरकार, सेवा के किसी सदस्य द्वारा अनुरोध किए जाने पर, संतुष्ट होने और लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों से नोटिस की अवधि में ढील प्रदान कर सकती है।”

3. उक्त नियमावली में नियम 26 में उप नियम (1) के परन्तुक के लिए निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु यह कि संबंधित राज्य सरकार, उसी राज्य सेवा संवर्ग के किसी सदस्य को जो कि अधिकतम 22400-24500/- रुपये के वेतनमान वाले पद को धारण किए हुए है और जिसने सेवा से अपनी सेवानिवृत्ति से 3774 GI/2004

पहले के पांच वर्ष की अवधि के दौरान केन्द्र सरकार के अंतर्गत कार्य नहीं किया है, को पूर्व स्वीकृति प्रदान करे :

परन्तु यह और कि संबंधित पेंशनभोगी को ऐसी घोषणा पर कारण बताने का अवसर दिए बिना ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह भी कि किसी ऐसे पेंशनभोगी को, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा सेवानिवृत्ति पूर्व की छुट्टी के दौरान वाणिज्यिक रोजगार/नियुक्ति प्राप्त करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है, तो सेवानिवृत्ति के बाद ऐसे रोजगार/नियुक्ति को जारी रखने के लिए उसे, बाद में अनुमति लेनी अपेक्षित नहीं है।”

[फा. सं. 29018/11/2003-अ.भा.से.-II]

आलोक टण्डन, निदेशक (सेवाएँ)

पाद टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र में दिनांक 18 अगस्त, 1958 को सा.का.नि. संख्या 728 द्वारा प्रकाशित किए गए और तत्पश्चात् निम्नलिखित संख्याओं द्वारा संशोधित किए गए :—

क्र.	सा.का.नि. सं.	दिनांक
1.	526	04-09-64
2.	527	03-04-65
3.	528	03-04-65
4.	529	03-04-65
5.	572	17-04-65
6.	215	12-02-65
7.	1915	17-02-66

क्र.	सा.का.नि. सं.	दिनांक	क्र.	सा.का.नि. सं.	दिनांक
8.	590	03-03-68	45.	276	14-03-81
9.	687	06-07-74	46.	705	01-08-81
10.	755	02-07-74	47.	293	09-01-83
11.	946	07-09-74	48.	557	03-07-83
12.	27अ	24-01-75	49.	712	01-10-83
13.	724	14-06-75	50.	33	21-01-84
14.	2264	23-08-75	51.	559	15-06-85
15.	2635	08-11-75	52.	813	31-08-85
16.	2030	20-12-75	53.	275	22-05-87
17.	128	31-01-76	54.	343	03-04-88
18.	196	14-02-76	55.	567	16-07-88
19.	316	06-03-76	56.	91	25-02-89
20.	504	10-04-76	57.	420	21-02-90
21.	758	05-06-76	58.	101	16-02-91
22.	757	05-06-76	59.	2890	23-11-91
23.	1182	14-08-76	60.	308	19-06-93
24.	1765	25-12-76	61.	271	06-07-96
25.	579	07-05-77	62.	717अ	19-12-97
26.	830	02-07-77	63.	718अ	19-12-97
27.	831	02-07-77	64.	249अ	13-05-98
28.	1598	26-11-77	65.	252अ	18-05-98
29.	1700	24-12-77	66.	259अ	22-05-98
30.	252	18-02-78	67.	548अ	31-08-98
31.	253	18-02-78	68.	719अ	07-12-98
32.	460	08-04-78	69.	35अ	14-01-99
33.	924	22-07-78	70.	702अ	01-09-2000
34.	922	22-07-78	71.	355अ	14-05-01
35.	214	02-01-79	72.	524अ	11-07-01
36.	161	03-02-79	73.	49अ	18-01-02
37.	373	03-02-79	74.	779अ	21-11-02
38.	1151	15-09-79	75.	385अ	07-05-03
39.	1291	22-10-79			
40.	512	10-05-80			
41.	545	17-05-80			
42.	546	17-05-80			
43.	978	27-09-80			
44.	248	07-03-81			

**MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC
GRIEVANCES AND PENSIONS**

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th December, 2004

G.S.R. 820(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the All India Services

Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, after consultation with the Governments of the States concerned, hereby makes the following rules further to amend the All India Services (Death-cum-Retirement Benefits) Rules, 1958, namely :—

1. (1) These rules may be called the All India Services (Death-cum-Retirement Benefits) Amendment Rules, 2004.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the All India Services (Death-cum-Retirement Benefits) Rules, 1958 (hereinafter referred to as the said rules), to sub-rule (2) of rule 16, the following proviso shall be added, namely :—

“Provided further that the State Government concerned on a request made by the member of the service may, if satisfied and for reasons to be recorded in writing, relax the period of notice”.

3. In the said rules, in rule 26, for the provisos to sub-rule (1), the following provisos shall be substituted, namely :—

“Provided that the previous sanction may be granted by the State Government concerned on whose cadre the member of the service is borne and who is not holding a post higher than a post in the pay scale of Rs. 22400-24500 and has not worked under the Central Government during the preceding five years prior to his retirement from the service :

Provided further that no such order shall be made without giving the pensioner concerned an opportunity of showing cause against such declaration :

Provided also that a pensioner who has been permitted by the Central Government to take up a particular commercial employment during leave preparatory to retirement shall not be required to obtain subsequent permission for his continuance in such employment after retirement.”

[F. No. 29018/11/2003-AIS (II)]

ALOK TANDON, Director (Services)

Foot Note :—The principal rules were published in the Gazette of India *vide* number G.S.R. 728, dated the 18th August, 1958 and subsequently amended *vide* numbers :—

Sl. No.	G.S.R. No.	Date	Sl.No.	G.S.R. No.	Date
1.	526	4-9-64	8.	590	3-3-68
2.	527	3-4-65	9.	687	6-7-74
3.	528	3-4-65	10.	755	2-7-74
4.	529	3-4-65	11.	946	7-9-74
5.	572	17-4-65	12.	27(E)	24-1-75
6.	215	12-2-65	13.	724	14-6-75
7.	1915	17-2-66	14.	2264	23-8-75
			15.	2635	8-11-75
			16.	2030	20-12-75
			17.	128	31-1-76
			18.	196	14-2-76
			19.	316	6-3-76
			20.	504	10-4-76
			21.	758	5-6-76
			22.	757	5-6-76
			23.	1182	14-8-76
			24.	1765	25-12-76
			25.	579	7-5-77
			26.	830	2-7-77
			27.	831	2-7-77
			28.	1598	26-11-77
			29.	1700	24-12-77
			30.	252	18-2-78
			31.	253	18-2-78
			32.	460	8-4-78
			33.	924	22-7-78
			34.	922	22-7-78
			35.	214	2-1-79
			36.	161	3-2-79
			37.	373	3-2-79
			38.	1151	15-9-79
			39.	1291	22-10-79
			40.	512	10-5-80
			41.	545	17-5-80
			42.	546	17-5-80
			43.	978	27-9-80
			44.	248	7-3-81
			45.	276	14-3-81
			46.	705	1-8-81
			47.	293	9-1-83
			48.	557	3-7-83
			49.	712	1-10-83
			50.	33	21-1-84

Sl.No.	G.S.R. No.	Date	Sl.No.	G.S.R. No.	Date
51.	559	15-6-85	63.	718(E)	19-12-97
52.	813	31-8-85	64.	249(E)	13-5-98
53.	275	22-5-87	65.	252(E)	18-5-98
54.	343	3-4-88	66.	259(E)	22-5-98
55.	567	16-7-88	67.	548(E)	31-8-98
56.	91	25-2-89	68.	719(E)	7-12-98
57.	420	21-2-90	69.	35(E)	14-1-99
58.	101	16-2-91	70.	702(E)	1-9-2000
59.	2890	23-11-91	71.	355(E)	14-5-01
60.	308	19-6-93	72.	524(E)	11-7-01
61.	271	6-07-96	73.	49(E)	18-1-02
62.	717(E)	19-12-97	74.	779(E)	21-11-02
			75.	385(E)	7-5-03